



VIKAS ECOTECH LTD.
(A NSE/ BSE Listed Company)
CIN : L65999DL1984PLC019465
Web : www.vikasecotech.com
Email. : info@vikasecotech.com
Tel. : +91-11-431 44444

February 07, 2026

Listing Compliance Department
National Stock Exchange of India Limited.
Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai 400051
Fax: 022-26598235/36

Listing Compliance Department
BSE Limited.
Phirozee Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001

NSE Symbol: VIKASECO

Scrip Code: 530961

Sub: Newspaper Advertisement of Un-Audited Financial Results of the Company for the Quarter ended December 31, 2025

Dear Sir/ Madam,

We are enclosing herewith the copies of the newspaper advertisement relating to the publication of Un-Audited Financial Results of the Company for the Quarter ended December 31, 2025, as published in Financial Express (English Edition) and Jansatta (Hindi Edition) newspapers both dated February 05, 2026 in compliance with the provisions of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Please disseminate this information on your official website and oblige.

Thanking you,

Yours Faithfully,
for **Vikas Ecotech Limited**

Digitally signed
by RAJEEV KUMAR

Rajeev Kumar
Executive Director
DIN: 1027175

| PUBLIC NOTICE LOSS OF SHARE CERTIFICATE(S) | | | | | |
|--|-----------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| OPTIEMUS INFRACOM LIMITED | | | | | |
| Registered Office : K-20 Second Floor Lagan Nagar-II New Delhi 110024 | | | | | |
| Corporate Office : D-348, Sector-43, Noida, Uttar Pradesh-201 307 | | | | | |
| Notice is hereby given that the following share certificate (s) of has been reported lost and has applied to this company for the issue of duplicate share Certificate. | | | | | |
| S. No. | Folio No. | Name of the Holder/ Purchaser(s) | Certificate No(s). | Distinctive Nos. | No. of Shares |
| 1 | 10000032 | RAJIV LOCHAN KEJRIWAL | 12123 - 12222 | 1211521 - 1211620 | 10100 |
| Any person (s) who has / have any claim in respect of the said certificate (s) should lodge such claim (s) with the share department of the Company at its Regd. Office, at or above address given below within 15 days of the publication of this NOTICE. After which no claim will be entertained and the company will proceed to issue the duplicate share certificate (s). | | | | | |
| LNN | | | SD/- | | |
| Date : 06-02-2020 | | | NAME OF THE SHAREHOLDERS | | |
| | | | RAJIV LOCHAN KEJRIWAL | | |

FORM NO. URC-2
Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI of the Companies Act, 2013 [Pursuant to section 374(b) of the Companies Act, 2013 and rule 4(1) of the Companies (Authorised to Register) Rules, 2014]

1. Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application is proposed to be made after fifteen days hereof but before the expiry of thirty days hereinafter to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No 6.7.8, Sector-5, IMT Manesar, District Gurgaon, Haryana -122050, that "Sunbright Dealer LLP (LLPIN: AAG-0022)", a LLP may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act, 2013, as a company limited by shares.

2. The principal objects of the company are as follow:
To carry on the business as distributors, agents, traders, merchants, contractors, brokers and otherwise deal in merchandise and articles of all kinds.

3. A copy of the draft Memorandum and Articles of Association of the proposed Company may be inspected at the registered office at A-4, Friends Colony (East), New Delhi- 110065, India.

4. Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No 6.7.8, Sector-5, IMT Manesar, District Gurgaon, Haryana -122050, within twenty one days from the date of publication of this notice, with a copy to the company at its registered office.

For Sunbright Dealers LLP
Sd/-
Vardaan Agarwal
Designated Partner
DPIN: 03503077

Dated:07/02/2026
Place: New Delhi

FORM NO. URC-2
Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI of the Companies Act, 2013 [Pursuant to section 374(b) of the Companies Act, 2013 and rule 4(1) of the Companies (Authorised to Register) Rules, 2014]

1. Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application is proposed to be made after fifteen days hereof but before the expiry of thirty days hereinafter to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No 6.7.8, Sector-5, IMT Manesar, District Gurgaon, Haryana -122050, that "Sunbright Dealer LLP (LLPIN: AAG-0022)", a LLP may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act, 2013, as a company limited by shares.

2. The principal objects of the company are as follow:
To carry on the business as distributors, agents, traders, merchants, contractors, brokers and otherwise deal in merchandise and articles of all kinds.

3. A copy of the draft Memorandum and Articles of Association of the proposed Company may be inspected at the registered office at A-4, Friends Colony (East), New Delhi- 110065, India.

4. Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No 6.7.8, Sector-5, IMT Manesar, District Gurgaon, Haryana -122050, within twenty one days from the date of publication of this notice, with a copy to the company at its registered office.

For Sunbright Dealers LLP
Sd/-
Vardaan Agarwal
Designated Partner
DPIN: 03503077

Dated:07/02/2026
Place: New Delhi

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

GANPATI COTTEX LIMITED
Regd. Off: 1/1241 A, Subhash Park Naveen Shahdara, East Delhi, New Delhi-110032
CIN: U87230DL1997LC087814
E-Mail ID: ganpaticottexid@gmail.com
Form No. INC-26

(Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014)

Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another

Before the Central Government
Northern Region

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND

In the matter of Ganapati Cottex Limited having its registered office at 1/1241 A, Subhash Park Naveen Shahdara, East Delhi, New Delhi-110032.

...Petitioner

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Annual-General-Meeting/ Extra ordinary general meeting held on 12th January, 2026 to enable the company to change its Registered Office from "National Capital Territory to Delhi" to the "State of Haryana"

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address B-2 Wing, 2nd Floor Pl. Deendayal Anandoyada Bhawan, CGO Complex New Delhi- 110003 within thirty days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned above:

Certified True Copy
For and on behalf of the Board
For Ganapati Cottex Limited

Sd/- Sd/-
Rishabh Pruthi Neha Pruthi
Place: Delhi (Director) (Director)
Date : 06.02.2026 DIN: 03462268 DIN: 03497828

Connaught Circus Branch
H-16, Indra Palace, Connaught Circus, New Delhi - 110001, INDIA
Office: (D) +91-11-2373-9794, 2373-8369.

APPENDIX IV [Rule - 8 (1)] POSSESSION NOTICE (for immovable property)

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of the Bank of India H-16, Connaught Circus, New Delhi-110001 under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice dated 24.11.2025 calling upon M/s. Shree Parshva Nath Saree and Proprietor Mr. Aniruddh Awasthi to repay the amount mentioned in the notice being Rs.9,70,176.38 (Rupees Nine Lakhs Seventy Thousands One Hundred Seventy Six and paise Thirty Eight) with further interest, expenses and other charges etc. thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower / guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower / guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described here in below in exercise of powers conferred on him/her under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 05th day of February, 2026.

The borrower / guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank of India H-16, Connaught Circus, New Delhi-110001 for an amount of Rs.9,70,176.38 (Rupees Nine Lakhs Seventy Thousands One Hundred Seventy Six and paise Thirty Eight) with further interest w.e.f. 21.11.2025 with costs, etc. thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of the movable Property :
(a) Hypothecation of all type of Stocks

Date: 05.02.2026, Place: Delhi **Authorized Officer, Bank of India**

YES / BANK

Yes Bank Ltd., B-XX/2427/928 Gf-Flr Gobind Nagar Main Ferozepur Road, Ludhiana

Rule – 8(1)] POSSESSION NOTICE

Account No:- MIC007001354739

Whereas The undersigned being the Authorized Officer of YES BANK Limited under the Securitization & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a demand notice dated 30th-June-2025 calling upon (1) Rakesh Kumar S/o Dayanand, Address at: 943, Baroda Mor, Baroda Mor (12), Sonapat, Haryana-131304, Also, At: Santosh Lokesh Dharuhera, Rewari, Partl Baas Road, Rewari, Near AERO Champ Play School, Pincode-123106, Also, At: SPL 1240-44, RICO Indus Trail Area, Phase-I, Extn. Bhiwadi, Rajasthan Pincode-131304, (Borrower), (2) Sunita, W/o Rakesh Kumar, Address at: 943, Baroda Mor, Baroda Mor (12), Sonapat, Haryana-131304, Also, At: Ekta Colony Tehsil Gohana, Balaji Oil Mill, (Mustard Oil), Sonapat, Haryana- 131301, (Co-Borrower & Mortgagor) to Repay The Amount of Rs. 1,676,621.18/- (Rupees Sixteen Lacs Seventy-Six Thousand Six Hundred Twenty-One and Eighteen Paise Only) respectively as on 27th-June-25 together with further interest and other charges thereon with effect from 02-Feb-2026, within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower and Guarantors having failed to repay the full amount, notice is hereby given to the Borrower, Guarantors and the public in general that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the 02-Feb-26 2026. The Borrower and Guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the said property and any dealings with the said properties will be subject to the charge of YES BANK Limited for balance outstanding amount of Rs. 1,676,621.18/- (Rupees Sixteen Lacs Seventy-Six Thousand Six Hundred Twenty-One and Eighteen Paise Only) respectively as on 27th-June-25 and interest and costs thereon. The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY

| Description of the mortgaged property | Bounded as Under | Mortgagor |
|--|--|--------------------------|
| All That Piece And Parcel Of The Immovable Property Bearing Land Khewat No. 4047, Khata No. 4459 Keela No. 255/17, Rakba 8 Kanal 0 Marlen 1/32 Bhag Bakdar 5 Marles I.E. 150 Sq Yrds, Ekta Colony, District Gohana, District Sonapat Owned By Sunita | East: 22 Feet 6 Inch, Gali 20 Feet Wide, West: 22 Feet 6 Inch, Gali 20 Feet Wide, North: 60 Feet- Plot Of Digran, South: 60 Feet-Plot Of Digran. | Sunita, W/o Rakesh Kumar |

Date:07-Feb-26 2026, Place: Gohana, Sonapat **Sd/- (Authorized Officer) YES BANK LIMITED**

FORM NO.1
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL LUCKNOW
(Area of Jurisdiction of Uttar Pradesh)
OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER

600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow-226007

DRC No. 639/2018/Lko/RO-I

NOTICE UNDER RULE 2 OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH SECTION 29 OF DEBTS RECOVERY ACT 1993

PUNJAB NATIONAL BANK **.....APPLICANT**

VERSUS **.....DEFENDANT**

M/s J.S. ENTERPRISES & OTHERS

1. M/S J.S. ENTERPRISES THOROUGH ITS PROPRIETOR SHRI JAIBIR SINGH HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT J-133, SITE C- SURAJPUR, INDUSTRIAL AREA (UPSIDC) GREATER NOIDA, GAUTAM BUDH NAGAR-201308.

2. SHRI JAIBIR SINGH (PROPRIETOR) SON OF SHRI MAHAVIR SINGH, R/O, B-119, RAIL NAGAR SECTOR-50, NOIDA GAUTAM BUDH NAGAR.

This is to notify that a sum of **RS. 31,82,716.00/- (RUPEES THIRTY ONE LACS, EIGHTY TWO THOUSAND SEVEN HUNDRED SIXTEEN ONLY)** (Rs.21,73,430.00 In Cash Credit (Hypotecation) Account and (Rs. 10,09,286.00 in Term Loan Account) together with pendentitle and future interest@ 12.00% per annum from the date of filing of the Original Application i.e. 26.09.2016 till the loan is fully liquidated and costs and is hereby allowed succeeds and is hereby allowed exparty against defendant no. 1 to 2 jointly and severally.

2. You are hereby directed to pay the sum within 15 days of the receipt of this notice failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of Debts due to Bank and Financial Institutions Act, 1993.

3. You are hereby ordered to declare on Affidavit the particulars of asset on or before 16.08.2026.

4. You are hereby ordered to appear before the undersigned on 16.08.2026 at 10:30 AM.

Details of cost:

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Application Fee | : Rs. 34,000.00 |
| Counsel fees & Clerkage | : Rs. 39,109.00 |
| Publication charges | : Rs. 15,000.00 |
| Miscellaneous Expenses | : Rs. 5,000.00 |
| Clerical Charges | : Rs. Nil |

Given under my hand and seal on this 19th Day of December 2025.

RECOVERY OFFICER-I
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम

Dehradun Zonal Office, 1072, Ashirwad Tower, 2nd Floor, Bullpur Road, Sunder Vihar, Chakrata Road, Dehradun-248001

Head Office : Lokmanya, 1501, Shivajinagar, Pune-5

APPENDIX-IV (RULE -8 (1)) POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the **Bank of Maharashtra** under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under Sub-Section (12) of Section 13 read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice/s on the dates mentioned against each account calling upon the respective Borrowers/ Guarantors/ Mortgagors to repay the amount as mentioned against each account within 60 days from the date of notice(s)/ date of receipt of the said notice(s). The Borrowers/Guarantors/Mortgagors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers/ Guarantors/ Mortgagors and the public in general that the undersigned has taken **Possession** of the property/ies described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on the dates mentioned against each property. The Borrowers/Guarantors/Mortgagors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies and any dealing with the property/ies will be subject to the charge of **Bank of Maharashtra** for the amounts and interest thereon. The Borrowers/Guarantors/Mortgagors attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

| Sr. No. | Name of the Branch/ Borrower/ Mortgagor/Guarantor | Description of Mortgaged Movable Property | Amount outstanding as on the date of demand notice | Date of Demand Notice |
|---------|--|--|--|--|
| 1. | Branch : Roorkhee Borrower : 1. Mr. Ashok Kumar Verma S/o Mr. Sri Ram Verma, Since Deceased Through His Legal Heirs, R/o- Ganpati Dham, Phase -3, Block B, Village Jamalpur Kalan, Jwalapur, Haridwar, Uttarakhand-249404. | Residential property located at Part of Plot No. 239 & 240, Khasha No. 360, Ganpati Dham, Phase-3, Block OB, Gram Jamalpur Kalan, Pargana Jwalapur, District Haridwar, Uttarakhand-249404 admeasuring 81.273 sq. mtr. Bounded as:-North- 22.0' wide road, East- Part of Plot No. 240, West- Part of Plot no. 239, South- Other's property. | Rs. 28,69,888.00 + interest (as applicable), w.e.f 22.09.2025 expenses and other charges thereon | 22.09.2025 Date of Possession Notice affixed 04.02.2026 |
| | 2. Mrs. Anuradha Verma W/o Mr. Ashok Kumar Verma, R/o- Ganpati Dham, Phase -3, Block B, Village Jamalpur Kalan, Jwalapur, Haridwar, Uttarakhand-249404. | | | |
| 2. | Branch : Haridwar Borrower : Sh. Rakesh Kumar S/o Lt. Sh. Kashi Ram, Address : 1 House No. 55, Dadu Bagh Ashram, Kankhal, Pargana Jwalapur, Tehsil and Distt. Haridwar, Uttarakhand- 249408, Address 2: House No. 222, Rawali Mahdood, Tehsil and Distt. Haridwar, Uttarakhand -249402, Guarantor:- Mr. Bal Krishan, Address: House No. 222, Rawali Mahdood, Tehsil and Distt. Haridwar, Uttarakhand - 249402 . | Equitable Mortgage of Residential Plot bearing Plot No. 2 comprised in Khasha No. 107, Village Jamalpur Kalan, Pargana Jwalapur, Tehsil and District Haridwar admeasuring 207.43 sq. mtr., in the name of Mr. Rakesh Kumar as pe Sale Deed Registered vide Wahi No. 1, Zild 350, pages 181 to 190 at SI No. 12,914 registered before Sub Registrar Haridwar on 12.09.2017, Bounded as :- East- Rasta 20 ft wide, West- Rasta 22 ft. wide, North- Rasta 20 ft wide, South- Plot No. 3. | Rs. 20,01,170.00 + interest thereon at contractual rate in the account w.e.f. 11.11.2025 along with penal interest @ 2% and other charges/expenses | 11.11.2025 Date of Possession Notice affixed 04.02.2026 |
| | | | | |

Date: 04.02.2026 **Place: Dehradun** **Authorised Officer, Bank of Maharashtra**

| VIKAS ECOTECH LIMITED (CIN- L65999DL1984PLC019465) | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Registered office: Vikas House, 3, Arihant Nagar, Rohtak Road, Punjabi Bagh West, Delhi 110026, Phone No: 011-43144444, Email - info@vikasecotech.com | | | | | | | | | | | | |
| UN-AUDITED CONSOLIDATED & STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31st DECEMBER, 2025 | | | | | | | | | | | | |
| Particulars | Consolidated Figures | | | | | | Standalone Figures | | | | | |
| | Quarter Ended | | | Year Ended | | | Quarter Ended | | | Year Ended | | |
| | 31-Dec-25 | 30-Sep-25 | 31-Dec-24 | 31-Dec-25 | 31-Dec-24 | 31-Mar-25 | 31-Dec-25 | 30-Sep-25 | 31-Dec-24 | 31-Dec-25 | 31-Dec-24 | 31-Mar-25 |
| | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Audited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Audited) |
| Total Income | 7,115.11 | 6,682.06 | 8,625.59 | 24,256.89 | 27,845.86 | 38,384.98 | 5,238.89 | 4,769.50 | 6,236.25 | 18,463.98 | 21,126.90 | 29,087.50 |
| Total Expenses | 6,925.53 | 6,454.91 | 8,587.10 | 23,508.47 | 27,304.97 | 37,518.88 | 5,187.25 | 4,650.06 | 6,150.82 | 18,058.92 | 20,645.67 | 28,357.50 |
| Profit/(Loss) Before Tax | 189.58 | 227.15 | 38.50 | 748.42 | 1,827.59 | 2,152.80 | 51.63 | 119.44 | 85.43 | 405.05 | 1,767.93 | 2,016.70 |
| Total Tax Expense | 243.89 | 51.73 | 93.92 | 390.31 | 559.57 | 454.43 | 175.67 | 42.65 | 104.50 | 282.60 | 537.37 | 588.56 |
| Profit/(loss) for the period | -54.31 | 175.42 | (55.42) | 358.11 | 1,268.02 | 1,698.37 | (124.04) | 76.79 | (19.06) | 122.46 | 1,230.55 | 1,428.14 |
| Total comprehensive income (Comprising Profit (Loss) and Other Comprehensive Income for the period) | -54.17 | 175.63 | (45.17) | 358.36 | 1,271.85 | 1,707.58 | (124.05) | 76.92 | (13.98) | 122.85 | 1,234.69 | 1,437.65 |
| Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs.1 each) | 13,883.56 | 13,883.56 | 17,687.06 | 13,883.56 | 17,687.06 | 13,883.56 | 13,883.56 | 13,883.56 | 17,687.06 | 13,883.56 | 17,687.06 | 13,883.56 |
| Equity shares of par value Rs 1 each Basic/Diluted | (0.00) | 0.01 | (0.00) | 0.03 | 0.07 | 0.10 | (0.01) | 0.01 | (0.00) | 0.01 | 0.07 | 0.09 |
| Notes: | | | | | | | | | | | | |
| The Consolidated financial results of the company have been prepared in accordance with Ind AS prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013 (the Act) read with the relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. | | | | | | | | | | | | |
| The above Quarter and half year ended results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on February 05, 2026. The Statutory auditors have carried out a Limited Review Report for the quarter and half year ended December 31 2025. | | | | | | | | | | | | |
| For Vikas Ecotech Limited Sd/- Rajeev Kumar, Director (DIN:10271754) | | | | | | | | | | | | |
| Date: 06.02.2026 Place: New Delhi | | | | | | | | | | | | |

| केनरा बैंक Canara Bank | | Asset Recovery Management Branch | | E-AUCTION SALE NOTICE | |
|---|--|--|--|---|--|
| A Govt. of India Undertaking | | Bells House, 21, Camac Street, 5th Floor Kolkata - 700 016 | | DATED : 25.02.226 | |
| सिंडिकेट Syndicate | | E-mail : cb2364@canarabank.com | | | |
| Notice is hereby given to the effect that properties scriescribed herein under, taken possession under the provisions of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and Security Interest (Enforcement) Rules 2002, will be sold by online through e-auction as under : | | | | | |
| Offers are invited from the intending purchasers for sale of the under mentioned secured asset on the following terms & conditions: | | | | | |
| Sl. No. | A) Name and Address of the Secured Creditor B) Name and Address of the Borrower(s) / Guarantor(s) | A) Liability (plus Interest Due) B) Date of Demand Notice U/s 13(2) C) Date of Possession Notice U/s 13(4) | Details of Properties | A) Reserve Price B) EMD C) Bid Incremental Amount D) Contact Person Branch and Regional Office E) EMD Deposit Account | |
| 1. | A) Canara Bank, Asset Recovery Management Branch 21, Camac Street, 5th Floor, Bells House, Kolkata - 700 016. B) M/s. Topline Commodities Pvt. Ltd. (Borrower / Mortgagor) 2, Brabourne Road, 6th Floor, P.S. - Hare Street, Kolkata, Pin - 700 001. Also at :- D-3/162, 163, 172 Dahej-III, GIDC Industrial Estate, P.S. - Vagra, Dist - Bharruch, Gujarat, Pin - 392 130. M/s. Wonder Images Private Limited (Guarantor / Mortgagor) 2, Brabourne Road, 6th Floor, Flat No. 9, W E F Hare Street, P.S - Hare Street, West Bengal, Kolkata - 700 001. Also at :- Tangra Industrial Estate-II (Bengal Pottery Compound), 45, Radhanath Chowdhury Road, P.S. - Tangera, Kolkata - 700 015. M/s. Aniruddha Construction & Investment Pvt. Ltd. (Guarantor / Mortgagor) 2, Brabourne Road, 6th Floor, P.S. - Hare Street, West Bengal, Kolkata - 700 001. M/s. Avadhesh Properties & Holdings Pvt. Ltd. (Guarantor / Mortgagor) 2, Brabourne Road, 6th Floor, P.S. - Hare Street, West Bengal, Kolkata - 700 001. Mrs. Mallika Poddar (Legal Heir of Late Rajesh Poddar) W/o. Late Rajesh Poddar AD-227 Salt Lake City, Sector-1, Bidhannagar, P.S. - Bidhannagar, Kolkata, West Bengal, Pin - 700 064.. Sri Aditya Poddar (Legal Heir of Late Rajesh Poddar) S/o. Late Rajesh Poddar AD-227 Salt Lake City, Sector-1, Bidhannagar, P.S. - Bidhannagar, Kolkata, West Bengal, Pin - 700 064.. Miss Ayushi Poddar (Legal Heir of Late Rajesh Poddar) D/o. Late Rajesh Poddar AD-227 Salt Lake City, Sector-1, Bidhannagar, P.S. - Bidhannagar, Kolkata, West Bengal, Pin - 700 064.. Sri Sanjay Poddar (Guarantor / Mortgagor / Legal Heirs of Late Ram Awatar Poddar) S/o. Sri Ram Awatar Poddar Poddar House, AD - 227, Salt Lake City, Sector-1, Bidhannagar, P.S. - Bidhannagar, Kolkata - 700 064.. Sri Mayur Poddar (Guarantor / Legal Heir of Late Ram Awatar Poddar) S/o. Late Ram Awatar Poddar BD196, Salt Lake City, Sector - 1, Tank No. 3, Kolkata Bidhannagar, P.S. - Bidhannagar, CC Block, Kolkata - 700 064. | A) Rs. 101,91,29,120.89 (Rupees One Hundred One Crores Ninety One Lakhs Twenty Nine Thousand One Hundred Twenty and Paise Eighty Nine only) along with further applicable interest and charges from 01.01.2026. B) 09.01.2024 C) 27.03.2024 | Delhi Property : EMT of all that piece and parcel of Land and Building at Property No. 5951, measuring 109 Sq. Yds., Plot No. 7, Block No. 3B, Kh No. 4220/2589, Khatoni No. 989, Gali No. 4, situated at Basti Raigar, Dev Nagar, Karol Bagh, P.S.- Prasad Nagar, West Delhi. Butted and bounded by : North By - Hardyanh Singh Road, South By - Gali No. 4, East By - Property No. 5950, West By - Property No. 5952. (Property under Symbolic Possession) | A) Rs. 7,10,00,000.00 (Rupees Seven Crores Ten Lakhs only) B) Rs. 71,00,000.00 (Rupees Seventy One Lakhs only) C) Rs. 1,00,000.00 (Rupees One Lakh only) D) Contact Person : Chief Manager, ARM Branch Kolkata, (Mob.) : 90518 82364 E) EMD amount of Rs. 71,00,000.00 to be deposited by adding the amount through e-wallet available in BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) portal. | |

केंद्रीय गृहमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित अग्रिम चौकियों का दौरा किया

तैनात सैन्य कर्मियों की निरंतर सतर्कता महत्त्वपूर्ण : शाह

जम्मू, 6 फरवरी (भाषा)।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आधुनिक उपकरणों के माध्यम से सीमा सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए शुक्रवार को कहा कि अग्रिम मोर्चों पर तैनात कर्मियों की निरंतर सतर्कता महत्त्वपूर्ण बनी हुई है। वहीं, उन्नत प्रौद्योगिकी से उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला समान रूप से उन्नत तकनीकी समाधानों से किया जाना चाहिए। शाह जम्मू-कश्मीर के कठुआ में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित अग्रिम चौकियों के दौरे के दौरान सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने आपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बलों की भूमिका की भी सराहना की। इस अभियान के दौरान जम्मू सीमा पर सीमा के पार 118 दुश्मन चौकियों और तीन आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार और बीएसएफ दोनों का साझा उद्देश्य देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ साल पहले जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, वे आज की चुनौतियों से बिल्कुल अलग हैं। गृह मंत्री ने कहा, कुछ साल पहले सीमाओं पर हमें जिन चुनौतियों का सामना करना



कठुआ में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित अग्रिम चौकियों का दौरा करते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह।

पड़ता था, वे आज की चुनौतियों से बिल्कुल अलग हैं। हालांकि, उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से उभरती चुनौतियों के साथ-साथ, हमें उनका मुकाबला करने के लिए तकनीकी समाधान भी खोजने होंगे। हीरानगर सेक्टर में गुरनाम और बोबियान की सीमा चौकियों के दौरे के दौरान उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका और बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार भी थे। उनको यह यात्रा सीमा प्रबंधन पर विशेष तवज्जो के बीच हो रही है, जिसका उद्देश्य आतंकवादियों की घुसपैठ और हथियारों और

नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना है।

शाह ने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की : शाह ने जम्मू-कश्मीर की मौजूदा सुरक्षा स्थिति के आकलन के लिए शुक्रवार को यहां सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में समीक्षा बैठक की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह बैठक ऐसे समय में हुई है, जब आतंकवाद रोधी अभियान तेज कर दिए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप पिछले दो हफ्तों में जम्मू क्षेत्र के कठुआ, उधमपुर और किश्तवाड़ जिलों में लगभग एक दर्जन मुठभेड़ों के बाद पाकिस्तानी मूल के चार आतंकवादियों को मार गिराया गया।

नीट-पीजी : कट-आफ कम करने के फैसले पर न्यायालय ने एनबीईएमएस से मांगा स्पष्टीकरण

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 6 फरवरी।

उच्चतम न्यायालय ने आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) को 2025-26 की राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा नीट-पीजी के लिए पात्रता कट-आफ परसेंटाइल काफी कम करने के निर्णय पर स्पष्टीकरण देने का शुक्रवार को निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने एनबीईएमएस को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद के लिए स्थगित कर दी। पीठ ने कहा, एक तरफ तो हमें यह सुनिश्चित करना है कि सीट व्यर्थ न जाएं, वहीं दूसरी तरफ, उम्मीदवारों के न आने का बचाव भी है, इसलिए कृपया कटआफ कम कर दें...तब बहस इस बात पर होगी कि मानक गिराए जा रहे हैं तथा उसका जवाब यह होगा कि सीट बेकार जा रही हैं। पीठ ने कहा, इसलिए एक जगह संतुलन बनाना होगा।

उच्चतम न्यायालय ने कहा महिला को गर्भ जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 6 फरवरी।

उच्चतम न्यायालय ने 17-वर्षीय लड़की के 30 सप्ताह के गर्भ को चिकित्सकीय तौर पर समाप्त करने का निर्देश देते हुए शुक्रवार को कहा कि अदालत किसी महिला, खासकर नाबालिग को, गर्भ जारी रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकती।

न्यायमूर्ति बी वी नागवत्मा और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने इस बात का संज्ञान लिया कि लड़की पड़ोस के एक लड़के के साथ संबंध में थी और इसी दौरान वह गर्भवती हो गई थी और उसने चिकित्सकीय रूप से अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने का अदालत से आग्रह किया है। पीठ ने मुंबई के जेजे अस्पताल की नाबालिग की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने का निर्देश दिया, साथ ही यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपायों

का पालन किया जाए। पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने इस तथ्य पर विचार किया था कि नाबालिग बच्ची को गर्भावस्था जारी रखने का अधिकार है, लेकिन यह गर्भ अवैध था, क्योंकि स्वयं बच्ची नाबालिग है और एक रिश्ते से उत्पन्न दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के कारण गर्भ धारण कर चुकी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मुद्दा यह नहीं है कि संबंध सहमति से बनाया गया था या यह यौन उत्पीड़न का परिणाम था। न्यायालय ने अस्पताल के चिकित्सा बोर्ड की रपट पर ध्यान दिया कि यदि बच्चे को पूर्ण अवधि के बाद जन्म देने की अनुमति दी जाती है तो बच्चे और मां के जीवन को कोई

खतरा नहीं है। पीठ ने कहा, यदि मां के हितां को ध्यान में रखना है, तो उसकी प्रजनन स्वायत्तता पर पर्याप्त जोर दिया जाना चाहिए। अदालत किसी भी महिला, विशेषकर नाबालिग बच्ची को, गर्भावस्था पूरी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, यदि वह ऐसा करने का इरादा नहीं रखती है।

जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंचेगी रेल

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 6 फरवरी।

जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों तक रेल संपर्क को मजबूत किया जाएगा। इसकी मदद से केवल उक्त क्षेत्रों तक पहुंच कर आसान होगी, साथ ही सेना तक रसद पहुंचाने में भी तेजी आएगी। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए भारतीय रेलवे ने काजीगुंड-श्रीनगर-बडगाम रेलखंड के दोहरीकरण (118 किलोमीटर) और बारामूला से उरी तक नई रेल लाइन (40 किलोमीटर) के लिए विस्तृत परियोजना रपट (डीपीआर) तैयार कर ली गई है।

इसके अलावा, श्रीनगर-बारामूला रेलखंड के विस्तार का तहत सोपौर से कुपवाड़ा (34 किलोमीटर) तक नई रेल लाइन का सर्वे और डीपीआर तैयार किया गया था, लेकिन परियोजना को तकनीकी रूप से अय्यवहारिक पाए जाने के कारण आगे नहीं बढ़ाया गया रेल मंत्रालय ने 'एनसी वैण्णव का कहना है कि बारामूला-श्रीनगर रेल लाइन को और मजबूत किया जा रहा है। वहीं सीमावर्ती इलाकों को जोड़ने के लिए राजौरी-पुंछ रेल लाइन पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि अन्य मार्ग को लेकर तैयार हुए डीपीआर के बाद किसी भी परियोजना को मंजूरी देने के लिए राज्य सरकारों समेत विभिन्न हित धारकों से परामर्श आवश्यक होता है। इसके साथ ही नीति आयोग और वित्त मंत्रालय सहित दूसरी संस्थाओं से अनुमोदन लिया जाता है। इस दिशा में काम किया जा रहा है।

भारत ने ‘अग्नि-3’ मिसाइल का सफल परीक्षण किया

बालासोर, 6 फरवरी (भाषा)।

भारत ने शुक्रवार को ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ‘अग्नि-3’ का सफल परीक्षण किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। परीक्षण में सभी परिचालन और तकनीकी मानदंडों को सही पाया गया। अधिकारी ने बताया कि यह परीक्षण सामरिक बल कमान की देखरेख में किया गया।

‘तिरुपति लड्डू’ बनाने के लिए मिलावटी घी का हो रहा इस्तेमाल : चंद्रबाबू नायडू

कलुगोटला , 6 फरवरी (भाषा)।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि वाइएसआरसीपी शासन के दौरान तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) को ‘तिरुपति लड्डू’ बनाने के लिए आपूर्ति किए गए घी में शौचालय साफ करने में इस्तेमाल होने वाली रासायनिक सामग्री की मिलावट थी। कुरुनूल जिले के कलुगोटला गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने मिलावटी प्रसाद के माध्यम से भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि वाइएसआरसीपी शासन के दौरान श्रीशैलमर को आपूर्ति किए गए घी में भी मिलावट की गई थी।

| <div>SHRIRAM</div> <div>श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंस लिमिटेड</div> <div>CIN : L29112DL1963PLC004084</div> |
|---|
| <div>पंजीकृत कार्यालय : तीसरी मंजिल, हिमालया हाऊस, 23, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली – 110 001, फोन : +91 11 2331 5941</div> |
| E-mail : compliance.officer@shrirampistons.com , Website : www.shrirampistons.com |
| सदस्यों को पोस्टल बैलट नोटिस एवं ई-वोटिंग के संबंध में सूचना |
| एतद्वारा सूचित किया जाता है कि श्रीराम पिस्टन्स एण्ड रिंस लिमिटेड (‘कम्पनी’) पोस्टल बैलट के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग द्वारा निम्नलिखित संकल्पों पर कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन चाह रही है : क्र. सं संकल्पों का विवरण 1. कंपनी के नाम में परिवर्तन पर विचार करना तथा उसका अनुमोदन करना। 2. कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कंपनी को उद्देश्य वर्लोज़ खंड (ऑब्जेक्ट वर्लोज़) में संशोधन पर विचार करना तथा उसे अनुमोदित करना और कंपनी के नए ज्ञानन (मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन) अपनाना। 3. कंपनी के अटिक्लस ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन करना और उसे मंजूरी देना। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 110, धारा 108 तथा अन्य लागू प्रावधानों के साथ तथा कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 एवं 22, यथा संशोधित, तथा सामान्य समाओं के आयोजन/डाक मतपत्र के संचालन के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (‘एमसीए’) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार-अर्थात् सामान्य परिचय संख्या 14/2020, 17/2020 तथा नवीनतम परिचय संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 शामिल है (सांकेतिक रूप से ‘एमसीए परिचय’ कहलाते हैं)-यह सूचना केवल ई-मेल के माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेजी जायगी जिन्होंने अपने ई-मेल पते कंपनी /अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (आरटीए) /डिगॉजिटरी पार्टिसिपेटर्स के साथ पंजीकृत कराए हैं तथा जिसके नाम मेमोरान लिगोपेरिटिज डिगॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेट्रल डिगॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (‘सीडीएसएल’) से प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर/लाभकारों स्वािमियों की सूची में सुम्बवार, 6 फरवरी, 2026 (‘फैट-ऑफ डे’) को दर्ज हैं। इस पोस्टल बैलट के लिए सदस्यों को पोस्टल बैलट नोटिस, बैलट फॉर्म तथा ग्री-पेज बिजनेस रिप्लाई लिफाफे की हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी और सदस्यों को अपनी सहमति या असहमति केवल रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से ही व्यक्त करनी होगी। डाक मतपत्र की सूचना कंपनी की वेबसाइट https://shrirampistons.com/investors-guide-2/ पर भी उपलब्ध होगी। यह सूचना उन स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध होगी, जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचिवद्ध हैं, अर्थात् बीएससी लिमिटेड (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE), क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर, तथा एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी, जो रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी है। कंपनी अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है, जिससे वे भौतिक डाक मतपत्र प्राप्त करना करने के बजाय सूचना में उल्लिखित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने मत डील सकते हैं। सदस्यों के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि को उनके नाम पर पंजीकृत शेयरों के कुलता मूल्य के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। ई-मेल पते एवं अन्य विवरणों के पंजीकरण की प्रक्रिया निम्नानुसार है: i) अस्थायी पंजीकरण हेतु: यह पात्र शेयरधारक कंपनी /आरटीए के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं करा पाए हैं, वे compliance.officer@shrirampistons.com पर ई-मेल अनुरोध भेजकर अस्थायी रूप से अपना /अपने ई-मेल पता / (पते) कंपनी के साथ पंजीकृत करा सकते हैं तथा उसके पश्चात बताए गए पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करें। ई-मेल के सफल पंजीकरण के पश्चात, शेयरधारक को एनएसडीएल से डाक मतपत्र की सूचना की सॉफ्ट कॉपी तथा ई-वोटिंग की प्रक्रिया, उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड सहित प्राप्त होगी, जिससे वह डाक मतपत्र के लिए ई-वोटिंग कर सकेगा। ई-मेल पते के पंजीकरण से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, शेयरधारक compliance.officer@shrirampistons.com पर ई-मेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं तथा ई-वोटिंग से संबंधित प्रश्नों के लिए एनएसडीएल को evoting@nsdl.co.in पर मेल कर सकते हैं। ii) स्थायी पंजीकरण हेतु: यह संपद किया जाता है कि ई-मेल पते के स्थायी पंजीकरण के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराएं। क) डीमेट होल्डिंग्स के संबंध में, संबंधित डिगॉजिटरी पार्टिसिपेट (डीपी) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए। ख) कंपनी /आरटीए के पास भौतिक होल्डिंग्स के संबंध में, निर्धारित प्रपत्र में अनुरोध भेजकर। iii) बैक विवरण का पंजीकरण: कृपया अपने डिगॉजिटरी पार्टिसिपेट से संपर्क करें और अपने डिस्टिट खाते में अपने ई-मेल पते और बैंक खाता विवरण पंजीकृत करवाएं, जैसा कि आपके डीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया में बताया गया है। यदि आपके पास शेयर भौतिक रूप में हैं, तो कृपया कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए) यानी Alankit Assignments Limited से संपर्क करें। |
| <div>कृते श्रीराम पिस्टन्स एण्ड रिंस लिमिटेड (हस्ता./—) (फिजक सुचारा) स्थान : नई दिल्ली दिनांक : फरवरी 06, 2026 कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सदस्य सं. : F-4647 तीसरी मंजिल, हिमालया हाऊस, 23, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली – 110 001</div> |



खिलाडियों के लिए स्टूडियेड भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) मुख्यालय की ओर अलाहाबाद पुलिस द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए खेल स्टूडियेड प्रदान किए जाने हेतु 15-18 वर्ष एवं 18-24 वर्ष आयु वर्ग के प्रतिभाशाली खिलाडियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान 1 बैडमिंटन, 2 क्रिकेट, 3 फुटबॉल, 4 हॉकी 5. टेबल टेनिस खेलों में विभिन्न मान्यता-प्राप्त स्तरों पर अपने खेल का प्रतिनिधित्व किया हो। पात्र खिलाड़ी अपने आवेदन सचिव (एफएमएसपीसी), भारतीय खाद्य निगम, मुख्यालय (13वीं मंजिल), 16-20, बाराखाना लेन, नई दिल्ली-110001 के पते पर भेज सकते हैं।


पत्रवाता मानदंड, आवेदन प्रारूप एवं अन्य विवरणों के लिए कृपया एफसीआई की वेबसाइट www.fci.gov.in देखें।

सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है **बै. मेटेडोक इन्फो टेक एलएलपी** जिसका एलएलपी आईडेंटिफिकेशन नंबर : ACI-9513 और पंजीकृत कार्यालय राइट बरकाती फ्लोर , पहाडी मौजिल-42, एम सी रोड , लखी नगर, ईस्ट दिल्ली, पिनको-110092 है, के पंजीकृत कार्यालय को **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली** में बटावर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानांतरित करना चाहती है। प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित कोई व्यक्ति अलग विरोध व ज्ञानन उपलब्ध बृषणा के प्रस्तावित लेने के 21 दिनों के अंदर ईकटुपुर ऑफ कम्प्लायंस, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा , चौकी बाजार, आठपनीमार्ग टावर , जेकर प्लेस , नई दिल्ली-110019 को भेजे।

विरोध का कारण एवं आधार, अगर कोई है, मूल प्रति से एक प्रत्येक के साथ निम्नरूप अर्द्ध कर्णवीन के कार्यालय को एवं उसकी एक प्रति प्रतिजारी कम्पनी के उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजी जाची चाहिये।

आपेक्षक की ओर से और उसके निम्ने **बै. मेटेडोक इन्फोटेक एलएलपी** हस्ता./— (**संकेता बंसल**)
डैजिनिटेड पाईनर

स्थान : दिल्ली
दिनांक: 07 फरवरी 2026

| <div>JUBILANT PHARMOVA</div> |
|--|
| पंजीकृत कार्यालय: भारतियाग्राम, गजरोला, जिला अमरोहा-244223 (उ.प्र.) सीआईएन :L24116UP1978PLC004624 वेबसाइट: www.jubilantpharmova.com ई-मेल: investors@jubl.com फोन: +91-5924-267437 |
| 31 दिसम्बर 2025 को समाप्त तिमाही और नौ महिनों के लिए एकल और समेकित अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण |
| कंपनी के निदेशक मंडल ने 6 फरवरी, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और नौ महिनों के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों को मंजूरी दी, जिसकी समीक्षा लेखा परीक्षा समिति ने 5 फरवरी, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में की और निदेशक मंडल ने 6 फरवरी, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में इसे मंजूरी दी। इन परिणामों के साथ लेखापरीक्षक की रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट पर वैब लिंक https://www.jubilantpharmova.com/Uploads/files/99q3stanfileResults.pdf स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.nseindia.com और www.bseindia.com पर उपलब्ध है। आप इन परिणामों को क्यूआर कोड स्कैन करके भी देख सकते हैं। |
| स्थान: नोएडा दिनांक: 06 फरवरी, 2026 |
| टिप्पणी: उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अन्तर्गत विनियम 47(1) के अनुसार है। |

| <div>एसबीसीसी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड</div> <div>सीआईएन: L18100UP2011PLC043209</div> |
|--|
| रजि. बंद: 9, लोहिया तलाब, छोटी बसही पी.ओ. विन्ध्यचल, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश, भारत, 231307 |
| टेलीफोन: 0120-2895246, ईमेल: info@sbcexportslimited.com , वेबसाइट: www.sbcexportslimited.com |
| अलेखापरीक्षित समेकित और एकल 31 दिसम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही और नौ माह वित्तीय परिणामों का विवरण |
| <p>31 दिसम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही और अर्ध वर्ष के लिए अलेखापरीक्षित समेकित और एकल वित्तीय परिणामों (वित्तीय परिणाम) की समीक्षा लेखपरीक्षा समिति द्वारा की गई है और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 05 फरवरी, 2026 को आयोजित अपनी-अपनी बैठकों में अनुमोदित किया गया है। वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.nseindia.com और www.bseindia.com पर और कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। https://www.sbce×portslimited.com/financial-results और क्यूआर कोड को स्कैन करके इस तक पहुंचा जा सकता है।</p> <p>एकडी/- गोविंद जी कुमार प्रबंध निदेशक</p> |
| स्थान: राहिविवाध दिनांक: 05-02-2026 |

| VIKAS ECOTECH LIMITED (CIN- L65999DL1984PLC019465) Registered office: Vikas House, 3, Arihant Nagar, Rohtak Road, Punjabi Bagh West, Delhi 110026, Phone No: 011-43144444, Email - info@vikasecotech.com | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| UN-AUDITED CONSOLIDATED & STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31st DECEMBER. 2025 | | | | | | | | | | | | |
| Particulars | Consolidated Figures | | | | | | FIGURES IN LAKHS EXCEPT SHARE DATA Standalone Figures | | | | | |
| | Quarter Ended | | | Nine Months Ended | | Year Ended | Quarter Ended | | | Nine Months Ended | | Year Ended |
| | 31-Dec-25 (Unaudited) | 30-Sep-25 (Unaudited) | 31-Dec-24 (Unaudited) | 31-Dec-25 (Unaudited) | 31-Dec-24 (Unaudited) | 31-Mar-25 (Audited) | 31-Dec-25 Unaudited | 30-Sep-25 Unaudited | 31-Dec-24 Unaudited | 31-Dec-25 Unaudited | 31-Dec-24 Unaudited | 31-Mar-25 Audited |
| Total Income | 7,115.11 | 6,682.06 | 8,625.59 | 24,256.89 | 27,845.86 | 38,384.98 | 5,238.89 | 4,769.50 | 6,236.25 | 18,463.98 | 21,126.90 | 29,087.50 |
| Total Expenses | 6,925.53 | 6,454.91 | 8,587.10 | 23,508.47 | 27,304.97 | 37,518.88 | 5,187.25 | 4,650.06 | 6,150.82 | 18,058.92 | 20,645.67 | 28,357.50 |
| Profit/(Loss) Before Tax | 189.58 | 227.15 | 38.50 | 748.42 | 1,827.59 | 2,152.80 | 51.63 | 119.44 | 85.43 | 405.05 | 1,767.93 | 2,016.70 |
| Total Tax Expense | 243.89 | 51.73 | 93.92 | 390.31 | 559.57 | 454.43 | 175.67 | 42.65 | 104.50 | 282.60 | 537.37 | 588.56 |
| Profit/(loss) for the period | -54.31 | 175.42 | (55.42) | 358.11 | 1,268.02 | 1,698.37 | (124.04) | 76.79 | (19.06) | 122.46 | 1,230.55 | 1,428.14 |
| Total comprehensive income (Comprising Profit (Loss) and Other Comprehensive Income for the period) | -54.17 | 175.63 | (45.17) | 358.36 | 1,271.85 | 1,707.58 | (124.05) | 76.92 | (13.98) | 122.85 | 1,234.69 | 1,437.65 |
| Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs.1 each) | 13,883.56 | 13,883.56 | 17,687.06 | 13,883.56 | 17,687.06 | 13,883.56 | 13,883.56 | 13,883.56 | 17,687.06 | 13,883.56 | 17,687.06 | 13,883.56 |
| Equity shares of par value Rs 1 each | | | | | | | | | | | | |
| Basic/Diluted | (0.00) | 0.01 | (0.00) | 0.03 | 0.07 | 0.10 | (0.01) | 0.01 | (0.00) | 0.01 | 0.07 | 0.09 |
| Notes: The Consolidated financial results of the company have been prepared in accordance with Ind AS prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013 (the Act) read with the relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The above Quarter and half year ended results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on February 05, 2026. The Statutory auditors have carried out a Limited Review Report for the results for the quarter and half year ended December 31 2025. | | | | | | | | | | | | |
| For Vikas Ecotech Limited Sd/- Rajeev Kumar, Director (DIN:10271754) | | | | | | | | | | | | |
| Date: 06.02.2026 Place: New Delhi | | | | | | | | | | | | |